

September 08, 2020

Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra
(East),Mumbai – 400 051
: INE350H01032
Trading Symbol : BLKASHYAP

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation of Newspaper Publication - Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Date

In compliance with Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published in Financial Express (English Language) and Jansatta (Hindi Language) on September 08, 2020, inter alia, informing about 31st Annual General Meeting of the Company, details relating to e-voting facility and Book Closure related details.

Const.
Interiors &
Allied Services

ew Del

Kindly take the same on records.

Thanking You.

Yours faithfully,

For B.L. Kashyap and Sons Limited

Pushpak Kumar

GM-Corporate Affairs & Company Secretary

M.No.: F-6871

Encl: as above

B L Kashyap & Sons Ltd. (CIN: L74899DL1989PLC036148) 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola New Delhi 110 025, India Tel: +91 11 4305 8345, 4050 0300

Fax: +91 11 4050 0333

Mail: info@blkashyap.com blkashyap.com

FINANCIAL EXPRESS

ZONAL OFFICE: STAR HOUSE, SCO 76-82, SECTOR 31-A, CHANDIGARH, PHONE NO. 0172-2671517, 2671518 E-mail: chandigarh.ARD@bankofindia.co.in

[Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, the Authorised Officer of Bank of India, under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned Borrower/Guarantor on the dates mentioned against the account & stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub section (4) of the section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest

(Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against the account. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the Bank of India for the amounts and

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Branch & Account/ Borrower & Guarantor	The second of the second of the second		Amount Outstanding as per demand notice	
FARIDABAD (M) BRANCH	: 1G/52, B.P	NIT Farid	labad 121001 Pi	4. 0129-4010036, 4027205
M / s Mansi Traders, Proprietor Mr. Rakesh Kumar Sarang S/o Mr. Rampal		04.09.2020	and interest thereon	Kanals 4 marlas forming part of Khewat/Khatoni No.
Mr. Rakesh Kumar Sarang & Mrs. Sheetal Sarang	13.03.2020	04.09.2020	Rs. 40,34,812.23 & interest thereon	116/137, Rect. No. 16, Killa No. 19/1(5-4), Rect. No. 17, Killa No. 16/3(2-17) situated
		District Fa	ridabad owned by	Mr. Rakesh Kumar. Sarang- er property & Village Shahpura

Road, On the West by: Other property, On the South by: Other property.

			CT FARIDABAD PH.				
M/s Sai Traders Prop. Mr. Lalit Kumar & Guarantor Mrs. Murti W/o Balbir (Mortgagor)	03.10.2019	04.09.2020	Rs. 10,52,828/- plus interest w.e.f. 30.09.2019 & other charges	All that property Mustil N	t part / in kh No. 74,	& parce lewat No Kita No.	. 1 11/1

[(5-3), Mustil No. 75, Kila No. 15 (8-0), Mohalla Kumharawara, Village Tigaon, Sub Tehsil Tigaon measuring 137.5 Sq. Yards owned by Mrs. Murti W/o Balbir Singh, Bounded: On the East By: House of Smt. Dharamwati W/o Sh. Karamvir, On the West by: Other part of Smt. Murti Devi, On the North by: Gali Mohalla Kumharo Wala, On the South By: Rasta 15 Ft.

1. Sh. Gajraj Nagar S/o Sh. Pratap Singh & Sh. Balraj Nagar S/o Sh. Pratap Singh. 02.03.2020 2. Sh. Gajraj Nagar S/o Sh. charges for Loan against property account &

04.09.2020 plus interest w.e.f. property consisting of land & 30.09.2019 and other building measuring 1 kanal 13 marlas i.e 998.25 Sq. Yards Pratap Singh and Mrs. Geeta 2. Rs. 3,90,854.97 plus interest w.e.f. 31.01.2020 and i.e 1/48th share of total land measuring 79 Kanals 10

1. Rs. 15,65,941.78 All the part & parcel of the

Marlas comprised in Khewat No. 82, Khotani No. 124-129, Rect No. 26, Killa No. 7 min(2-13) 8min (2-9), Khatoni No. 25, Rect No. 26, Killa No. 126, Rect. No. 26, Killa No. 5/1 min(1-4), 7 min (2-13), 18 min (3-14) Khatoni No. 127, Rect. No. 22, Killa No. 25/1 (1-4), Rect. No. 26, Killa No. 3 (2-9), 4 min (2-13), 8 min (2-9), 14 min (4-0), 17(8-0), 23/1 (5-8), Khatoni No. 128, Rect No. 22, Killa No. 25/1 min (1-3), Rect. No. 26, Killa No. 3 min (2-9), 4 min (2-14), 13 (7-7), 24 (8-0), Khatoni No. 129, Rect. No. 26, Killa No. 5 min (1-3) 8 min (2-9), 14 min (4-0) in the revenue Estate of Village Dehkola, Tigaon Mehmudpur Manjhawali Road, Tehsil Tigaon, District Faridabad owned and possessed by Mr. Gajraj Singh S/o Sh. Partap Singh Bounded: On the East by: Vacant land, On the West by: Vacant land, On the North by: Tigaon-Mehmudpur Road, On the South by: Vacant land.

CIN: L27107PB1985PLC006159

Regd Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O.

Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt, Mohali (Pb.

Tel: +91-172-2793112. Fax:+91-172-2794834

Email: ssl ssg@glide.net.in.

Web Site: www.sswlindia.com

Notice is hereby given that the meeting of the

LIMITED

Harkishanpura, Distt. Sangrur (Pb.)

CIN: L24301PB1986PLC006715

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR)

Regulations, 2015. Notice is hereby given

that a Meeting of the Board of Directors

of the Company will be held on

15.09.2020 at Chandigarh inter-alia to

consider and approve Un-audited

Financial Results for the quarter ended

For Indian Acrylics Limited

Sd/- CS Hari Babu Thota

(Company under Liquidation)

Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N00084/2017-2018/10225

Om Pizzas and Eats India Private Limited

Date: 07.09.2020

Place: Faridabad/ Tigaon FORM NO INC-26

4

Place: Chandigarh

Date: 07.09.2020

STEEL STRIPS

WHEELS LIMITED

Authorised Officer

BIHAR SPONGE IRON LIMITED CIN: L27106JH1982PLC001633

Read, Office: Umesh Nagar, Chandil, Distt. Saraikela-Kharsawan, Jharkhand - 832401 Email: companysecretary@bsil.org.in Website: www.bsil.org.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Monday, September 14, 2020, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the guarter ended on 30th June, 2020.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.bsil.org.in) and the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

By Order of the Board For Bihar Sponge Iron Limited

Place: New Delhi Dated: 07.09.2020

FORM NO INC-26 (Incorporation) Rules, 2014)

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another state Before the Central Government (Regional Director) Northern Region

In the matter of Neogenix Pharmaceuticals

Private Limited having its registered office at 153 S/F New Rajdhani Enclave, Preet Vihar, Delhi-Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to

the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting neld on 05th Sep, 2020 to enable the compan to change its Registered Office from "State of NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Registered Office: 153 S/F New Raidhani Enclave, Preet Vihar, Delhi-110092 For and on behalf of the Compan

Address: Harihar Singh Retd B.S.A Wali Gali, Lakhpera Bag Nawabganj, Barabanki, Uttar Pradesh-25001

SHARPLINE BROADCAST LIMITED

[Formerly known as Archit Holdings & Credits limited] Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Pahargani, Delhi- 110055 E-mail: sharplinebroadcastlimited@gmail.com, Website: www.sharplinebroadcast.in CIN:L22100DL1990PLC039464, Phone: 91-11-23552627

Notice is hereby given that 30th Annual General Meeting of members of company will be held on Monday, 28th September 2020 at 04:00 P.M. through video conferencing (VS)/other audio

Board of Directors of the Company is accordance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13 scheduled to be held on Tuesday the 15th day 020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/ of September, 2020 at Chandigarh inter alia, to MD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI ("circulars"), and owing difficulties involved in dispatching consider and approve the Un-Audited Financial thysical copies , the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 has been sent to member of ne company , whose email registered with Company / RTA on September 05, 2020. Members Results for the guarter ended June 30, 2020. may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2019-For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED 20 and Notice of AGM

> (A.V.Unnikrishnan) Dy. Managing Director nembers will not be available for the AGM.

Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses vith the Company, are requested to register/ update the same with the company's Registrar and INDIAN ACRYLICS Share Transfer Agent Skyline Financial Services Private Limited (herein referred as 'RTA') at

Please note that the aforesaid documents are also available on the Company's website at Regd Office: Company Works at Village Exchange of India Limited and at website of NSDL also evoting@nsdl.co.in.

brough remote e-voting or through e-voting system at the AGM by NDSL. The members may note Members holding shares as on cut- of date i.e. 18th September, 2020 may cast their vote

electronically on the ordinary business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Friday, 25th September, 2020 (09:00 A.M.) till Sunday, 27th September, 2020

or through e-voting system at the AGM. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. ne Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the e- voting process in a fair and transparent manner. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the

in case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https:// www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. For any further grievance related to the Remote E-voting, members may contact NSDL at the following

Phone No.+91 22 24994600/24994738

purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board For SHARPLINE BROADCAST LIMITED

Date: 5th September, 2020

Name: Paras Shah

Place : Delhi

DIN: 07070206 Designation: Director Address: 4-A-2B, Dadabari Ext. Kota Rajasthan 324009

Regd. Office: "Baid House" IInd Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaigur 06 . Ph.: 9214018855 E.; baidfinance@baidgroup.in • W.; www.balfc.com, CIN: L65910RJ1991PLC006391

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING AND

Leasing And Finance Co. Ltd. ("the Company") will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated Saturday, August 29, 2020 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBIJHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) collectively referred to as ("relevant circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of guorum

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all the members on Monday, September 07, 2020 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispended with vide MCA

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and (Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing e-voting facility to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means ('remote e-voting').

(a) The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Saturday, September 26, 2020 and shall end at 05:00 P.M. on Tuesday, September 29, 2020. The remote e-voting shall not be allowed after 05.00 P.M. on Tuesday. September 29, 2020. The same will be disabled by

(b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure instructions for remote e-voting and e-voting are contained in

(c) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. (d) Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM.

(e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.

through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

Company's website www.balfc.com, website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Mehboob Lakhani, Manager (022-23058543) / Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-23058542) CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone: 18002005533.

For Baid Leasing and Finance Co. Ltd

Date: 07th September, 2020 Place: New Delhi



B L KASHYAP B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN: L74899DL1989PLC036148) Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025

Ph: 011-40500300, 011-43058345, **fax**: 011-40500333 Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING**

NOTICE is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of "the Company" will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 10:00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the Ordinary and Special Business as given in the Notice of AGM. The Notice of AGM and Annual Report 2019-20 has been sent only in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM and Annual Report through e-mails has been completed on Sunday, September 06, 2020. Notice of AGM and Annual Report 2019-20 are also available on the website of the Company at www.blkashyap.com, website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and also available of the website of Link Intime India

Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cutoff date i.e. September 23, 2020 may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM through e-voting systems of LIIPL (remote e-voting).

- by electronic means.
- b) The remote e-voting shall commence on Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 a.m. and ends on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 p.m.
- c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or voting at the AGM is Wednesday, 23rd September 2020.
- d) The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting after 5:00 p.m. on 29th September, 2020. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said
- date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the
- dispatch of the notice and hold shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020 may obtain the login id and password by follow the same instructions as mentioned in the Notice of AGM for Remote e-Voting.

h) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting.

Pushpak Kumar, Company Secretary at pushpak@blkashyap.com or at Contact No. 011-40500300.

The result of the remote e-voting / e-voting at AGM shall be declared on or before 2nd October, 2020. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and on the website of LIIPL and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

Date: 6th September, 2020 **PUSHPAK KUMAR GM CORPORATE AFFAIRS & COMPANY SECRETARY** Place: New Delhi

WE BUILD YOUR WORLD

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L45101DL1967PLC004759

Mob.: 9871053419 Tel.: 66038348, 23353550, 66302268/69/70/72 Website: www.ansalapi.com Email id: shareholderservice@ansalapi.com

NOTICE OF THE 53RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION A. 53rd Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Member (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means

In accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated the 12th May, 2020 and circular Nos. 20/2020 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MC/ Circulars"), provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC / OAVM and the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company or with the Depositor Participant/ Depository.

website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents are also available on the websit of Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') i.e. https://instavote.linkintime.co.in. B. Book Closure

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the shareholders of th Company will remain closed from Tuesday, the 22nd September, 2020 to Monday, the 28tl September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of holding the 53rd AGM of the Company

the notes to the Notice of the 53rd AGM, before casting their vote.

E-voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of the Equity Shares registered in the name of the members as on cut-off date i.e. Monday, the 21st September, 2020 The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Monday, the 21st September, 2020, may cast their vote electronically (Remote e- voting/E voting at AGM) on the business as set forth in the Notice of the 53rd AGM of the Company. The remote e-voting commences on Friday, the 25th September, 2020 at 9.00 A.M. and ends or Sunday, the 27th September, 2020 at 5.00 P.M. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by LIIPL. Once a vote on the resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently.

LIIPL (https://instameet.linkintime.co.in) by following the instructions provided in the Notes to the Notice of the 53rd AGM. Such facility of joining (for Members) shall be kept open for 30 minute i.e. 15 minutes before and 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the AGM. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1,000 Members on a first come first served basis as per the above MCA Circulars.

The Company is also providing facility for e-voting at the AGM through LIIPL ("InstaMeet") and the instructions of the same are also mentioned in the Notice of the 53rd AGM. Members voting through remote e-voting option may also participate in the AGM and shall be counted for the purposes of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013, but shall not be allowed /entitled to vote again at the AGM. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting

rights at the AGM (through e-voting) vide link (https://instameet.linkintime.co.in) when window for e-voting is activated.

E. Manner of getting email registered i. Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-

mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution is required) at shareholderservice@ansalapi.com or to Link Intime India Private Ltd.,(LIIPL) at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update e-mail address thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. ii. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their

e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/her e-mail address through the above URL temporarily. F. Other instructions:

Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Monday, the 21st September, 2020 and other members (who are holding shares in physical mode and who have not registered updated their e-mail address with the Company as well as members who have not updated their emails with the Depository Participant/Depository) may obtain the login id and password by following the instructions for remote e-voting/attending and voting at the AGM, as mentioned ir following the the notes to the Notice of 53rd AGM which is available at the Company's website www.ansalapi.com and also on the website of LIIPL https://instavote.linkintime.co.in. However, if the member is already registered with LIIPL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting/e- voting at AGM. The Result of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within forty eight hours of conclusion of the AGM, i.e. on or before 30th September, 2020. The Results

declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company' website and on the website of LIIPL after the result is declared and simultaneously be communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. Due to the current lockdown situation in the wake of the COVID 19 pandemic, the result shall not be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office. APAC & Associates LLP, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the voting

process (including remote e-voting). In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in.under Help section or write an emai to enotices@linkintime.co.in or call them at Telephone: 022 – 49186000 or contact Mr. Pawan Singh Bisht, Manager, at 115, Ansal Bhawan , 16 , Kasturba Gandhi Marg , New Delhi 110001 or call at 011-66038217 or write an email to shareholderservice@ansalapi.com. For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

and Company Secretary Membership No. FCS 7135 **AJANTA SOYA LIMITED** CIN L15494RJ1992PLC016617

Ph. No. 911-6176727, 911-6128880 Corp. Office: 12th Floor, Bigjos Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110 034 **Ph. No.** 91-11-42515151, **Fax:** 91-11-42515100 Website: www.ajantasoya.com, E-mail: cs@ajantasoya.com

Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Dist Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Wednesday, 30th September, 2020 at 12:30 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 ('MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'), without the physical presence of Members at a common venue Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the

Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2019-2020 including the Financial Statements for the Financial Year 2019-20, along with the Director's Report Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, and which includes the process and manner of attending the AGM through VC and e-voting and other documents has been sent by email on 7th September 2020, to those members whose email addresses are registered with the company or Depository Participants. The requirements for sending physical copy of the notice of the 29th AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI circular. The Annual Report can be downloaded from the company's website at www.ajantasoya.com and the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. Notice of the AGM is also available on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent, of the Company will

108 of the Companies Act. 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is pleased to provide its members facility of remote E-Voting and E-voting during the AGM (Insta Poll). Accordingly, the items of business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by National Securities Depository Limited ('NSDL')

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Sunday 27th September, 2020 and end at 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, 29th September, 2020; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, 29th September, 2020; (c) No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (d) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Wednesday, 23rd September, 2020. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as of the Cut-of date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020, may obtain the User ID and Password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in**. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-222-990; (f) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights (g) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means but shall not be entitled to cast their e-vote again. (h) the Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ID with the Company/ RTA can cast their vote brough remote e-voting or through e-voting during the AGM by registering their e-mail ID. Members are requested to register their e-mail addresses by sending scanned copy of a signed request lette mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at cs@ajantasoya.com or to the email id of Skyline Financial Services Pvt Ltd- Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company a compliances@skylinerta.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants

Secretaries, Delhi, has been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process in a fair

Book Closure: Pursuant to the provision of section 91 of the Companies Act 2013 and rules made there under, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 015, the Register of Members and Share Transfer book of the Company will remain closed fro Wednesday 23rd September 2020 to Wednesday 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 29th Annual General Meeting to be held on Wednesday, 30th September, 2020. For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may

Trade World – A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Tel No.022-24994545 022-24994559 email to evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in. In case of any assitance regarding attending the meeting, please contact Mr. Lokesh Sharma a

By the order of Board For Ajanta Soya Limited

Place: New Delhi Date: 07-09-2020

lokesh@skylinerta.com or 011-40450193-197.

(DIN: 00125275)

Regd. Office: "Radhika", 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura Ahmedabd-380009 Branch Office: Building No. 59, 1st & IInd Floor,

Panchkuian Road, Near R K Ashram Metro, New Delhi-110001 DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

YOU THE BELOW MENTIONED BORROWERS, CO-BORROWERS AND GUARANTORS HAVE AVAILED LOAN(S)/ FINANCIAL FACILITY(IES) FROM HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED BY WORTGAGING YOUR IMMOVABLE PROPERTIES (SECURITIES) AND DEFAULTED IN REPAYMEN

DETAILS OF THE BORROWERS, CO-BORROWERS, LOAN ACCOUNT NO., LOAN AMOUNT DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) DATE, AMOUNT CLAIMED IN THE NOTICE, NPA DATE

AND SECURITIES ARE GIVEN AS UNDER 1. Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Shyam Sunder Khanna, Savitri Khanna, Gopal Krisar Khanna & Brij Mohan Khanna All At WZ A-47, Krishan Park Extn. Tilak Nagar, Delhi 110018, Also At C242, Mayapuri Phase II, Delhi 110064; Loan Account No. 157872; Loan Amount: Rs.5466557 (Rupees Fifty Four Lakhs Sixty Six Thousand Five Hundred Fifty Seven Only); Demand Notice Date: 17.08.2020 Amount Claimed: Rs. 4032645.49/- (Rupees Forty Lacs Thirty Two Thousand Six Hundred Forty Five And Forty Nine Pasis Only) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etcc.; Npa Date: 03.09.2019; Details Of Security: All that piece and parcel of Property bearing No. 74, build on land areas measuring 50 sq.yds, out of total land are neasuring 150 Sq.yds; out of khasra No. 883/28/50, Khatta No. 161/162, situated in the area of village Nangli Jalib, colony known as Krishna park Extn., in Block-A, New Delhi – 110018, Sale Deed duly egister as documents No. 3286, in Addl. Book with the office of the Sub-Registrar, Delhi, Property

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Anii Kumar Gupta, Arun Gupta, Amit Gupta Pushpa Gupta All At 5504/15, Basti Harpool Singh, Sadar Thana Road, Delhi 110006, Also At Property Bearing -182, First floor, Jagriti Enclave, Vikas Marg Delhi 10092, Also At LUV 306, Agarsen Awas IP Extension. Near Salco Appartemnt Delhi -110092 ; Loan Account No. 826240 ; Loan Amount: Rs. 12800000 (Rupees One Crore Twenty Eight Lakhs Only); Demand Notice Date: 17.08.2020; Amount Claimed: Rs. 88,85,396.78/ Rupees Eighty Eight Lacs Eighty Five Thousand Three Hundred Ninety Six And Seventy Eight Pasis) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.; Npa Date: 04.06.2020; Details Of Security: All that piece and parcel of property bearing Free-hold residential plot No. 182, First Floor along with Car & Scooter parking On Ground Floor and Common Rights of Stairs measuring area 320 Sq.Yds., situated in the area layout plan of the Jagriti Nagar C.H.B.S. Ltd. Now known as Jagriti Enclave, Vikas Marg Delhi – 110092 which is bounded as under : - Property bounded as: East; Service Lane; West; Road 100 ft. wide; North : Plot no 183

No No, J & K 56, Laxmi Nagar, Shakar Pur, New Delhi 110092, Also At Plot No D-362, Gali No 13 & 14 Khasra No 220, Shakarpur Khas, Laxmi Nagar, New Delhi 110092, Also At Plot No 26-B, area 50sc Covered Area 41.8 Sq.mtrs, Village KhureJi Khas, Abadi of J & K Block, Laxmi Nagar Village Shahadri Delhi 110092 Also At Unit No 1/4225, Ram Nagar Shahdara, Delhi 110032; Loan Account No. 745188 Loan Amount: Rs. 7000000 (Rupees Seventy Lakhs Only); Demand Notice Date: 17.08.2020; Amount Claimed: Rs. 15629354.39/- (Rupees One Crore Fifty Six Lacs Twenty Nine Thousand Three Hundred Fifty Four And Thirty Nine Pasis only) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual ealization together with incidental expenses, cost and charges etc.; Npa Date: 03.04.2016; Details Of Security: Property No 1 All that piece and parcel of Ground Floor(Having Covered area 35.95) & First Floor (Having Covered area 35.59) With Complete Roof /Terrace right area Measuring 43sq Said Portion Part Of Plot No D-362, Gali No 13 & 14, Khasra No 220, Shakarpur Khas, Laxmi Nagar, New Delhi 110092, Said Property Registered Mr Rajesh Sahdev deed duly Registered Sub Registrar Of Assurance as Document No 1647, In Additional Book No 1 Voloum No 226 On Page no 06 to 15 Registered On 25.04.2014. Property bounded as: East: Part Of Plot; West: Road; North: Part of Plot; South: D-363. Property No 2: All that piece and parcel of Portion Having area Measuring 50sg. Yds Said Portion Part Of property bearing No 26-B, area 50sq Covered Area 41.8 Sq mtrs, Village KhureJi Khas, Abadi of J & K. Block, Laxmi Nagar Village Shahadra Delhi 110092, Property bounded as: East: Portion of Property No

4. Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Babu lal Mavji Bhai Kasundra, Masot Asmitaben, Fefar Ashvinhai R & Fehar Haresh Ranchhodbhai All At Plot No 17, Kashra No 566, Ganga Puram Colony, Ghaziabad -201001, Also At Ploy No 11, Ganga Puram Colony, Ghaziabad -201001, Also At Plot No 19, Khasra No 566, Gangapuram, Ghaziabad 201001Also At Plot No 17, Khasra No 566, Gangapuram, Ghaziabad 201001; Loan Account No. 946035; Loan Amount: Rs.5036672 (Rupees Fifty Lakhs Thirty Six Thousand Six Hundred Seventy Two Only); Demand Notice Date: 17.08.2020 : Amount Claimed: Rs. 2844962.35/- (Rupees Twenty Eight Lacs Forty Four Thousand Nine Hundred Sixty two And Thirty Five) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc..; Npa Date: 04.06.2020; Details Of Security: Property No 1 All that piece and parcel of Plot No 17, Khasra No 566, Gangapuram Colony, Village Dasna, Ghaziaad -201001 Property Area 260.50Sq Yds Sale Deed In fovour of Shri Fehar Haresh. Property bounded as: East: Plot no 16,; West: Plot No 18, North : Road ; South : Land. Property No 2 : All that piece and parcel of Plot No 19, Khasra No 566, Gangapuram Colony, Village Dasna , Ghaziaad -201001, Property Area 205 Sq Yds Sale Deed In fovour of Shri Babu Lal and Fefar Ashwin Bhai, Property bounded as: East; Plot No 20; West: Plot No 18;

110085., Also At Shop No F-6, F-7, & F-8, First Floor, Plot No -142, ward No 12, New Qutub Road, Pul Delhi 110085, Also At 423 Lal Jyoti Appartments, Sector 9, Rohini Delhi -110006, Also AT Flat No 235, 5th Floor, Super HIG Dharam Kunj Sector 9- Rohini Delhi -110085.; Loan Account No. 1636327; Loan Amount: Rs. 6630542 (Rupees Sixty Six Lakhs Thirty Thousand Five Hundred Forty Two Only); Demand Notice Date: 17.08.2020: Amount Claimed: Rs.1,05,69.457.74/- (Rupees One Crore Five Lacs Sixty Nine Thousand Four Hundred Fifty Seven And Seventy Four Pasis) as of 14.08.2020 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc...; Npa Date: 04.12.2017; Details Of Security: All that piece and parcel of Shop No F-6, F-7,& F-8, First Floor, Part of Plot No 142, Ward No XII, New Qutub Road, Pul Mithai, Delhi 110006 Without Roof Right area 52.21Sq Mtrs Property Registered in favour of Rajni Goyal Duly Registered as document no 9448, in Book No I, Volume no 3540, Page no 136 to 145. Property bounded as: East: Other Shop No 09; West:

YOU THE BORROWER/ CO-BORROWERS AND GAURANTORS ARE THEREFORE CALLED UPON TO MAKE PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED DEMANDED AMOUNT WITH FURTHER INTEREST AS MENTIONED HEREINABOVE IN FULL WITHIN 60 DAYS OF THIS NOTICE FAILING WHICH THE UNDERSIGNED SHALL BE CONSTRAINED TO TAKE ACTION UNDER THE ACT TO

ENFORCE THE ABOVE-MENTIONED SECURITIES. OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE, TO REDEEM THE SECURED ASSETS.)

PLEASE NOTE THAT AS PER SECTION 13(13) OF THE SAID ACT, YOU ARE RESTRAINED FROM TRANSFERRING THE ABOVE-REFERRED SECURITIES BY WAY OF SALE, LEASE OR OTHERWISE WITHOUT OUR CONSENT AND ANY NON COMPLIANCE OF SECTION 13(13) OF THE

PHONE: 9654965496 OR MR. VIKAS ANAND PHONE-9711010384 Place : Delhi SD/- For HDB Financial Services Limited, DATE: 07/08/2020 Authorised Officer

22.10.2019

Nagar W/o Sh. Gajraj Nagar. other charges for Home Loan account

newspaper for change of registered office of the company from one state to another state (Regional Director) Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

[Pursuant to Rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the

In the matter of Anjanil Foods Private Limited having its registered office at 14 & 15 F/F Back Right Side West Guru Angad Nagar, Laxmi Nagar, Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to

the Central Government under section 13 of the

Companies Act, 2013 seeking confirmation of

alteration of the Memorandum of Association of

the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 25th August, 2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh' Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor

complaint form or cause to be delivered or sent by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regiona Director at the address Northern Region, E Wing, 2rd Floor, Paryavaran Bhawan, CG(

the address mentioned below:

Complex, New Delhi - 110003within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office a Registered Office: 14&15 F/F Back Right

Side West Guru Angad Nagar, Laxmi Nagar, Delhi-110092 For and on behalf of the Compan For Anjanil Foods Private Limited

Date: 08.09.2020 Alok Kumar Agarwal

June 30, 2020. Place: Chandigarh Bhavnesh K. Gupta Address: 13 S.S.P. Road Civil Lines. Date: 05/09/2020 Company Secretary Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273001

PUBLIC NOTICE IN THE MATTER OF OM PIZZAS AND EATS INDIA PRIVATE LIMITED

(COMPANY UNDER LIQUIDATION)

IN THE MATTER OF C.P. (IB) – 89 (ND) 2018 Regd.Office: Shop - G-3, G-Floor, Plot No.-4, Sector -12, PKT-7 Malhan, Falcon Plaza, Dwarka N. Delhi New Delhi – 110 078 (Regn. 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process)

Regulations, 2016) (For the attention of the Stakeholders of Om Pizzas and Eats India Private Limited (in Liquidation) Notice is hereby given that in response to the public announcement made by the undersigned on 3rd August 2020, in the matter of 0m Pizzas and Eats India Private Limited (Company under Liquidation) as per order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, Court - II dated 14th February 2020 (copy of the

order received on 30th July 2020), various stakeholders submitted their claims. After verification of the claims, the undersigned shall submit the list of stakeholders along with the status of the claims whether admitted/ rejected/ pending for verification to the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, Court - II. The copy of the said list of stakeholders is available for inspection with the liquidator

at his office situated at #41/1. 2nd Floor. 11th Cross. 8th Main. 2nd Block Javanagar, Bengaluru – 560011. |Place: Bengaluru Date:08-09-2020

UNIMODE OVERSEAS LIMITED 304A/10178, Illrd Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-11000; Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in CIN No. L51909DL1992PLC048444, Tel. No. 011-43685156

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Unimode Overseas Limited (the "Company") is scheduled to be held on Wednesday, 30" September, 2020 at 03:00 P.M. at the Registered Office at Ravinder Plaza, IVth Floor, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 to transact the Business(es) as stated in the Notice sent to the Members . The Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2020 sent to the email ids of the Shareholders whose Email id is registered with the Company/ Depository Participant(s) and is also posted on the website of the Company i.e. www.unimodeoverseas.in. The physical copies have been dispatched through the

2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means as provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all Resolution set forth in the Notice. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from 23"

a) The business as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. b) The date and time of Commencement of remote e-voting: Sunday, 27° September 2020.

of notice may obtain log in ID and password by sending a request via email at evoting@nsdi.co.in or beetelrta@gmail.com (RTA, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.), by mentioning his/her Folio no. /DP ID and client ID No. However, if such a shareholder is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. The remote e-voting shall not be allowed beyond 29" September, 2020, 05:00 P.M.

2020 to 29th September 2020) as well as voting at 28th AGM.

financialen epap.in

by electronic means is Wednesday, 23rd September 2020.

General Meeting. The members are further informed that:

at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regard at the The members who have cast their votes by e-voting prior to the meeting may also attend the general meeting but will not be entitled to cast their vote again at the 28th AGM. Members whose names are recorded in the register of members or in the register of

Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights

permitted mode to Members on 06th September, 2020. As per Section 108 of the Companies

Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules,

September, 2020 to 30* September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual

c) The date and time of end of remote e-voting: Tuesday 29th September 2020, 05:00 P.M.

d) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by ballot Paper at AGM Venue or

e) Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch

Notice of 28th AGM is available on the Company's website www.unimodeoverseas.in and on NSDL Website at evoting@nsdl.co.in k) In case of any queries, members may visit Help & FAQ's section available at NSDL's website download section on https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the Telephone No.: 022-24994587.

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., 23° September

2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting (between 27" September

By Order of the Board For Unimode Overseas Limited Sanjeev Pahwa Date: 06.09.2020

Director Place: New Delhi DIN: 02876785

Date: : September 07, 2020

Himani Mittal Company Secretary

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor omplaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region, B-2 Wing, 2rd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For Neogenix PharmaceuticalsPrivate Limited Ankita Srivastva Date: 08.09.2020 Director DIN: 07431842 Place : Delhi

Since the AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the Circulars, Physical attendances if members has been dispensed with. Accordingly, the facility for the appointment of proxies by the

www.sharplinebroadcast.inand on the website of the Stock Exchange i.e, The Metropolitan Stock Notice is further given that pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at 30th AGM by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted

Members of the company holdings shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut -off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period

BAID LEASING AND FINANCE CO. LTD.

REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Baid

under section 103 of the Act. Circular(s) and SEBI Circular.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

(f) The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2019-20 is available on the (g) Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the

> Panna Lal Baid Chairman & Managing Director (DIN: 00009897)

Pvt. Ltd. (LIIPL) at instavote.linkintime.co.in.

All the members are hereby informed that: a) The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting

e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again f) Only those persons whose names are recorded in the register of members or in

g) A person, who acquire share and become the shareholder of the Company after

The procedure of e-voting is available in the Notice of AGM sent to the members. In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in. under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on:- Tel: 022-49186000 or may contact Mr.

> By Order of the Board of Directors For B.L. KASHYAP AND SONS LIMITED

Regd. Off.: 115, Ansal Bhawan, 16, K. G. Marg, New Delhi - 110001

The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 are available on the Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the

In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act reac with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretaria Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members which would enable you to cast your vote electronically through e-voting services provided by our Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. (through their porta https://instavote.linkintime.co.in) on all the resolutions set forth in the Notice of the 53rd AGM The Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting mentioned in

D. Attending and E-voting at the AGM: Members may join the AGM through VC/OAVM facility through the e-voting Platform provided by

Abdul Sami General Manager(Corporate Affairs)

bounded as: East: Road 25ft; West: Portion of Plot; North : Others Property ; South: Others Property. South:Plot No. 81 3. Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Rajesh Sahdev, Meenu Sahdev & Saurav Sahdev, All At H

26 B; West: Road 15Ft Wide; North: Property No 26C; South: Property No 26A

Other Property, North: Common Passage; South: Other Property.

ACT IS PUNISHABLE UNDER SECTION 29 OF THE SAID ACT. FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. HARDEEP SABHARWAL,

New Delhi

be providing VC/OAVM Services. Instruction of Remote E-voting and E-Voting during AGM:- Pursuant to the provisions of Section

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 29th AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 29th AGM.

Mr. Debabrata Deb Nath, Company Secretary in Whole-time Practice of M/s R & D Company

refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited

Sushil Goya (Managing Director)

OF THE SAME, CONSEQUENT TO YOUR DEFAULTS YOUR LOAN WAS CLASSIFIED AS NON PERFORMING ASSET. SUBSEQUETLY, THE COMPANY HAS ISSUED DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSET AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (THE ACT), THE CONTENTS OF WHICH ARE BEING PUBLISHED HEREWITH AS PER SECTION 13(2) OF THE ACT READ WITH RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AS AND BY WAY OF ALTERNATE

A person, who has acquired shares and become Member of the Company after the dispatch of Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Ruchika Impex, Rajat Goyal, Anil Kumar Aggarwal, Santosh Goval & Raini Goval, All At H No. 142, 1st Floor New Outub Road, Pul Mithai Sadar Bazar, New Delhi Mithai Teliwara, Delhi 110006, Also At Flat No 235, Th Floor Super HIG Dharam Kunj, Sector -9, Rohini

(BORROWER'S ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION 13

तेलंगाना में हुई गोलीबारी में दो माओवादियों की मौत: पुलिस अभियान चला रहे थे। हैदराबाद, ७ सितंबर (भाषा)।

तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में सोमवार दोपहर को पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चेरला में यह घटना दोपहर करीब तीन बजे उस समय हुई जब विशेष पुलिस दल वन क्षेत्र में तलाशी

शाखा कार्यालयः एचडीएफसी बैंक, प्रथम तल, तीसरा पार्क स्ट्रीट, सामने पिंकिसटी पेट्रोल पम्प, एमआई रोड,

शी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मॉग सूचना रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय स्विधा(एँ) ग्रहण कीं और उनके पुनर्भगतान में चक की। आपकी चुक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सुचना निर्गत की है।

कर्जदारों, सह-कर्जदारों, ऋण खाता सं., ऋण की राशि, धारा 13(2) के तहत माँग सूचना, तिथि, सूचना में दावाकृत राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभृतियों का विवरण नीचे दिया गया है : । कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के नाम : त्रिवेणी स्टोर, रोमा एस, सत्य प्रकाश मृत, विधिक उत्तराधिकारियों वे

ा माध्यम से, श्रीमती प्रेमलता गोयला, एवं श्रीमती रोमा गोयल, सभी निवासी बी−5, सीता रामपुरी, हिंदा के मोरी मोती कटला, रामगंज बाजार, जयपुर-302003, ऋण खाता सं. : 2505738; ऋण राशि : रु. 50,00,000/- (रुपरे पचास लाख मात्र), मांग सूचना की तिथि : 17.08.2020 दावाकृत राशि : 14.08.2020 तक रु. 69,19,653.57/-(रुपये उनहत्तर लाख उन्नीस हजार छः सौ तिरेपन एवं सत्तावन पैसे मात्र) एवं आकस्मिक व्ययों, लागत एवं प्रभारे आदि सहित वास्तविक वसुली की तिथि तक भावी अनुबन्ध दर पर ब्याज। एनपीए तिथि : 03.10.2018; प्रतिभृति का विवरण : प्लॉट बी-5, सीताराम पुरी, हिदा के मोरी, मोती कटला, जयपुर, राजस्थान-302003 का सम्पूर्ण भाग, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 152.24 वर्ग गज. विक्रय विलेख श्री सत्य प्रकाश के पक्ष में, दस्तावेज सं. 2014052000708. पुस्तक सं.−I, वॉल्युम सं. 887, पुष्ठ सं. 90 पर, 04.02.2014 को पंजीकृत।

आप कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित प्रतिभितयों के प्रवर्तन हेत अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के

(प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)

कपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस बीच आपको उपर्युक्त सम्पत्ति का हमारी सहमति के बिना विक्रय, पट्टे अथवा अन्य रूप में उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभृतियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई अनुपालन कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री प्रशान्त राठौर, दूरभाष : 9928818000 स्थानः मुम्बई तिथिः 07.09.2020 ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी





66वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-मतदान और पुस्त बंदी की सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 66वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को सुबह 10:00 बजे (आई.एस.टी.)

कोविद-19 महामारी के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी का पालन करने हेत्, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 (जिन्हें सामृहिक रूप से "परिपत्र" कहा गया है), में कंपनी का ए.जी.एम. वीडियो कॉनफ्रेंस ("वीसी") / अन्य श्रव्य—दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा संचालित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट"), सेबी (सुचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) तथा उक्त परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करते हुए, ए, जी.एम. आहृत करने की सूचना ("नोटिस") में निर्धारित कारोबार करने क लिए कंपनी की ए.जी एम. वी.सी./ ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उक्त ए.जी.एम. आहत करने की सुचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") / कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट नामत: इंटीप्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ("आरटीए") के पास दर्ज है। उक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में निवेशक खंड के अंतर्गत तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह सूचना सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस ("इंडिया") लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य एजीएम के शुरु होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और एजीएम के दौरान www.evotingindia.com पर लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए और कंपनी की एजीएम के लिए ई.वी.एस.एन. चुनते हुए सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई सुविधा द्वारा वीसी ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया सूचना में दी गई है।

अधिनियम की धारा 91 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सुचीकरण विनियमों के विनियम 42 के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में यह अधिरिक्त सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियाँ गुरुवार, 17 सितंबर, 2020 से रविवार, 20 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सहित) बंद रखी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भगतान घोषणा करने के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर ऐसे सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम वास्तविक शेयर धारित करने के मामले में यथा 16 सितंबर, 2020 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में होते हैं। बहरहाल, डीमटीरियलीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भूगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोजिटरियों द्वारा दिए गए विवरण अनुसार 16 सितंबर, 2020 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में होते हैं। कंपनी सदस्यों को लाभांश का भुगतान वरीयत: इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस (ई.सी.एस.) द्वारा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई.सी.ए. क्रेडिट सदस्यों के संबंधित बैंक खातों में सही ढंग से प्राप्त किया जाता है, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जिनके पास उनके डीमैट खाते हैं, के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) द्वारा जारी सामान्य बैठकों के सचिवीय मानक (एस.एस-2) और सुचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में सुदूर ई—मतदान की सुविधा सीडीएसएल के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। सुदूर ई—मतदान सुकर बनाने के लिए कंपनी द्वारा सीडीएसएल के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। सुदूर ई—मतदान तथा एजीएम के दौरान ई—मतदान की विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश उक्त सूचना में उल्लिखित हैं। सभी सदस्यों को एतद्दवारा यह सचना दी जाती है कि -

 सुदूर ई—मतदान तथा एजीएम के दौरान ई—मतदान द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की पात्रता तय करने की निर्दिष्ट तारीख बुधवार, 23 सितंबर, 2020 है सभी सदस्यों के लिए, चाहे वे शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करते हों या डिमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हों, सदूर ई-मतदान 4 दिनों की अवधि के लिए खुला होगा जो शनिवार, 26 सितंबर, 2020 को सुबह 09:00 बजे (आई.एस.टी.) से शुरु होकर मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को शाम 05:00 बजे (आई.एस.टी.) समाप्त होगा। इसके बाद मतदान करने के लिए सुदूर ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सुदुर ई—मतदान उक्त तारीख और समय से पहले और बाद में अनुमत नहीं होगा। सदस्यों द्वारा एक बार किसी संकल्प पर मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद, वे इसे बाद में नहीं बदल सकेंगे।

2.शेयरों को डीमैंट रूप में, वास्तविक रूप से धारित करने वाले सदस्यों और ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल एड्रेस दर्ज नहीं कराया है, के लिए सुदूर ई-मतदान और एजीएम में मतदान करने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।

3.ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले सुदूर ई—मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे वीसी / ओएवीएम द्वारा इस एजीएम में शामिल हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें वे मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार नहीं होंगे।

4.यदि कोई सदस्य सदुर ई—मतदान के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है तो ऐसे सदस्य सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया उक्त सचना में दी गई है।

5.ऐसे सदस्य जो वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने सुदर ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम में ई—मतदान द्वारा मतदान करने के पात्र होंगे। एजीएम में ई—मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश उक्त स्चना में दिए गए हैं।

6.ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपने ई—मेल एडेस पंजीकत नहीं कराएँ हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिमटीरियलीकत रूप में शेयरों को धारित करने के मामले में अपने डीपी में और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने के मामले में कंपनी/आरटीए में अपने ई-मेल एडेस दर्ज करा लें। उक्त सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 और ई—मतदान के अनुदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन हेतु, यदि ई—मेल एड्रेस डीपी / कंपनी / आरटीए में दर्ज नहीं है, सदस्य https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx लिंक पर क्लिक करते हुए कंपनी के आरटीए में, इंटीग्रेटेड रजिस्टी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के पास अपने ई—मेल एडेस और मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं।

यदि सदस्य आप ई—मतदान प्रणाली से एजीएम और ई—मतदान के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो वे www.evotingindia.com में सहायता खंड के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई—मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं या श्री नितिन कुमार (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं ।

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बें गलुरु: एस. श्रीनिवास कंपनी सचिव

बी.एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड (CIN: L74899DL1989PLC036148)

पंजी. कार्या.: 409, 4था तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025 फोन: 011-40500300, 011-43058345, फैक्स: 011-40500333

ई-मेल: info@blkashyap.com; वेबसाईट: www.blkashyap.com

31 वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा

रिमोट ई-वोटिंग की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ''कम्पनी'' की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा. में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में दी गई साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण रविवार, 06 सितम्बर, 2020 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाईट www.blkashyap.com, स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थातु नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीसएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com तथा साथ ही लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआईआईपीएल) की वेबसाईट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2020 को भौतिक पद्धत्ति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्टानिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को एतदुद्वारा सुचित किया जाता है किः

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया

ख) रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता सुनिश्चित करने के

लिये कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 है। घ) 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद मतदान के लिये एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट

ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद उसकी अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी।

ङ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। च) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-

वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। छ) जो व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के लिये एजीएम की सुचना में वर्णित उसी निर्देशों का अनुसरण कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड

ज) सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें 31वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित तक बंद

ई-वोटिंग प्रक्रिया सदस्यों को भेजी गई एजीएम की सुचना में उपलब्ध है। यदि किसी शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग से संबंधित कोई जिज्ञासा हो. वे सहायता खंड के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा instavote e-voting मैन्युअल देखें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेजें अथवा टेली: 022-49186000 पर सम्पर्क करें अथवा आप श्री पृष्पक कुमार, कम्पनी सचिव से pushpak@blkashyap.com पर या 011-40500300 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग का परिणाम 2 अक्टूबर, 2020 को या उससे पूर्व घोषित किया जायेगा। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट तथा एलआईआईपीएल की वेबसाईट पर दिया जायेगा तथा उसकी जानकारी उन स्टॉक एक्सचैंजों को भी दी जायेगी जहाँ कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं।

> निदेशक मंडल के आदेश से बी.एल.कश्यप एंड सन्स लिमिटेड

तिथि: 6 सितम्बर, 2020 स्थानः नई दिल्ली पुष्पक कुमार जीएम कॉर्पोरेट कार्य एवं कम्पनी सचिव

WE BUILD YOUR WORLD

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009 शाखा कार्यालय: बिल्डिंग नं. 59. Iला एवं II रा तल. पंचकईया रोड. आर. के. आश्रम

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक, सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रख कर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/ वित्तीय सुविधा (एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चुक की है। आपकी चुक के उपरान्त आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरांत, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना, सूचना में दावी की गई राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभृतियों का विवरण इस प्रकार है:

📘 ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नामः श्याम सुन्दर खन्ना, सावित्री खन्ना, गोपाल किंशन खन्ना एवं बज मोहन 🗂 खन्नाः सभीः डब्ल्यूजेड ए-47, कृष्ण पार्क एक्स्टें, तिलक नगर, दिल्ली-110018, साथ हीः सी 242, मायापुर्र फेज II, दिल्ली-110064; ऋण खाता सं. 157872; ऋण राशिः रु. 5466557 (रुपये चौवन लाख छियासट हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र): मांग सुचना तिथिः 17.8.2020, मांग की गई राशिः रु. 4032645.49 (रुपये चालिस लाख बत्तीस हजार छः सौ पैंतालिस तथा पैसे उन्चास मात्र) 14.8.2020 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 03.09.2019; प्रतिभृति का विवरणः ग्राम नांगली जालिव, ब्लॉक-ए, नई दिल्ली-110018 में कृष्णा पार्क एक्स्टें. के नाम से विदित कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति सं. 74, भूमि क्षेत्रफल माप 50 वर्ग यार्ड्स, कुल भूमि माप 150 वर्ग यार्ड्स में से, खसरा नं. 883/28/50, खाता नं. 161/162 पर निर्मित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। बिक्री प्रलेख उप-रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में एडि. बुक में दस्तावेज सं. 3286 के रूप में विधिव पंजीकृत। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः 25 फीट रोड, पश्चिमः प्लॉट का भाग, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।

🛮 🙎 ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः अनिल कमार गप्ता, अरुण गप्ता, अमित गप्ता, पष्पा गप्ता, सभीः ै5504/15, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली-110006, साथ ही: सम्पत्ति-182, प्रथम तल, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092, साथ हीः एलयुबी 306, अगरसेन आवास आईपी एक्स्टेंशन, बाल्को अपार्टमेन्ट के निकट, दिल्ली-110092; ऋण खाता सं. 826240; ऋण राशिः रु. 12800000 (रुपये एक करोड़ अटठाईस लाख मात्र); मांग सचना तिथिः 17.08.2020; मांग की गई राशिः 14.8.2020 को रु. 88,85,396.78/-(रुपये अठासी लाख पचासी हजार तीन सौ छियानवे तथा पैसे अठहत्तर मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथि: 4.6.2020; प्रतिभृति का विवरण: जागृति नगर सी.एच.बी.एस. लि., अब जागृति एन्क्लेव विदित, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 की ले आउट प्लान क्षेत्र में स्थित भूतल पर कार एवं स्कृटर पार्किंग तथा सीढ़ियों के सामृहिक अधिकार के साथ क्षेत्रफल माप 320 वर्ग यार्ड्स में फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट नं. 182, प्रथम तल का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहदी इस प्रकार है: पुर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः 100 फीट चौडा रोड; उत्तरः प्लॉट नं. 183; दक्षिणः प्लॉट नं. 81

🔞 ऋणधारक एवं सह ऋणधारक का नामः राजेश सहदेव, मीन सहदेव एवं सौरभ सहदेव, सभीः एच.नं. जे एवं वे 🗂 56, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, नई दिल्ली–110092, साथ हीः प्लॉट नं. डी–362, गली नं. 13 एवं 14, खसरा नं. 220, शकरपुर खास लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092, साथ हीः प्लॉट नं. 26-बी, एरिया 50 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 41.8 वर्ग मी. ग्राम खरेजी खास. जे एवं के ब्लॉक की आबादी. लक्ष्मी नगर, ग्राम शाहदरा, दिल्ली-110092, साथ ही: यनिट नं. 1/4225. राम नगर. शाहदरा. दिल्ली-110032. ऋण खाता सं. 475188: ऋण राशि: रु. 7000000 (रुपये सत्तर लाख मात्र): मांग सचना तिथिः 17.8.2020: मांग की गई राशिः 14.8.2020 को रु. 15629354.39 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख उन्नतीस हजार तीन सौ चौवन तथा पैसे उन्तालिस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे. लागत, चार्जेज आदि के साथ आगे का अनबंधित ब्याज: एनपीए तिथि: 03.04.2016, प्रतिभत्ति का विवरण: भत्त तल (जिसका कवर्ड एरिया 35.95 है) एवं प्रथम तल जिसका कवर्ड एरिया (35.59) है, सम्पूर्ण छत/टैरेस के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल माप 43 वर्ग यार्ड्स प्लॉट नं. डी-362 का भाग, गली नं. 13 एवं 14, खसरा नं. 220, शकरपुर खास, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092 में स्थित का सभी भाग तथा हिस्सा। उक्त सम्पत्ति 25.4.2014 को पंजीकृत पेज नं. 06 से 15 पर वॉल्यम नं. 226. अतिरिक्त बक नं. 1 में दस्तावेज सं. 1647 के रूप में सब रजिस्टार ऑफ एस्युरैन्सेस के पास विधिवत रुप से श्री राजेश सहदेव के नाम से पंजीकृत प्रलेख में वर्णित है। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट का भाग, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट का भाग, दक्षिणः डी-363, सम्पत्ति सं. 2: ग्राम खुरेजी खास, जे एवं के ब्लॉक की आबादी लक्ष्मी नगर, ग्राम, शाहदरा, दिल्ली-110092 में सम्पत्ति सं. 26-बी, क्षेत्र 50 वर्ग मी. कवर्ड एरिया 41.8 वर्ग मी. के भाग में पोर्शन एरिया माप 50 वर्ग यार्डस का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहदी है: पर्वः सम्पत्ति सं. 26 बी का भाग, पश्चिमः 15 फीट चौडा रोड, उत्तरः सम्पत्ति सं. 26 सी; दक्षिणः सम्पत्ति सं. 26ए। 🕯 ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नामः बाबू लाल मबजी भाई कसुन्ड्रा, भसो अस्मिता बेन, फेफर अश्विनहः ं आर एवं फेहर हरेश रणछोड़भाई, सभीः प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 566, गंगा पुरम कॉलोनी, गाजियाबाद-201001; साथ ही: प्लॉट नं. 11, गंगा पुरम कॉलोनी, गाजियाबाद-201001; साथ ही: प्लॉट नं. 19, खसरा नं. 566, गंगा पुरम कॉलोनी, गाजियाबाद-201001, साथ हीः प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 566, गंगा पुरम कॉलोनी, गाजियाबाद-201001, ऋण खाता सं.: 946035; ऋण राशिः रु. 5036672 (रुपए पचास लाख छत्तीस हजार छह सौ बहत्तर मात्र); मांग सूचना तिथिः 17.8.2020; मांग की गई राशिः रु. 2844962.35 (रुपए अट्टाईस लाख चौआलिस हजार नौ सौ बासठ तथा पैसे पैंतीस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 4.6.2020; प्रतिभृति का विवरणः प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 566, गंगापुरम कॉलोनी, ग्राम डासना, गाजियाबाद-201001 का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 260.50 वर्ग यार्ड्स, बिक्री प्रलेख श्री फेहर हरेश के पक्ष में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 16, पश्चिमः प्लॉट नं. 18, उत्तरः रोड, दक्षिणः भूमि। सम्पत्ति सं. २: प्लॉट नं. 19, खसरा नं. 566, गंगापुरम कॉलोनी, ग्राम डासना,, गाजियाबाद-201001 का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 205 वर्ग यार्ड्स, बिक्री प्रलेख श्री बाबू लाल फेफर अश्विन भाई के पक्ष में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 20; पश्चिमः प्लॉट नं. 18; उत्तरः प्लॉट नं. 17, दक्षिणः रोड

5 ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः रूचिका का इम्पेक्स, रजत गोयल, अनिल कुमार अगरवाल, संतोष ैगोयल एवं रजनी गोयल, सभीः एच. नं. 142, 1ला तल, न्यु कृतुब रोड, पुल मिठाई सदर बाजार, नई दिल्ली-110085, साथ ही: शॉप नं. एफ-6, एफ-7 एवं एफ-8, प्रथम तल, प्लॉट नं. 142, वार्ड नं. 12, न्यू कृतुब रोड, पुल मिठाई तेलीवारा, नई दिल्ली-110006, साथ ही: फ्लैट नं. 235, टीएच फ्लोर सुपर एचआईजी धरम कुंज, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085, साथ ही: 423 लाल ज्योति अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली-110006, साथ ही एटी फ्लैट नं. 235, 5वां तल, सुपर एचआईजी धरम कुंज, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली-110085; ऋण खाता सं. 1636327; ऋण राशिः रु. 6630542/- (रुपए छियासठ लाख तीस हजार पांच सौ बयालिस मात्र); मांग सुचना तिथिः 17.8.2020; मांग की गई राशिः 14.8.2020 को रु. 1,05,69,457.74 (रुपए एक करोड़ पांच लाख उन्हत्तर हजार चार सौ सत्तावन तथा पैसे चौहत्तर मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 4.12.2017, प्रतिभृति का विवरणः शॉप नं. एफ-6, एफ-7 एवं एफ-8, प्रथम तल, सम्पत्ति सं. 142 का भाग, वार्ड नं. XII, न्यू कुतुब रोड, पुल मिठाई, नई दिल्ली-110006, बिना छत के अधिकार के, एरिया 52,21 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति बक नं. 1, वॉल्यम नं. 3540, पेज नं. 136 से 145 में दस्तावेज सं. 9448 के रूप में रजनी गोयल के पक्ष में विधिवत पंजीकृत है। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः अन्य शॉप नं.09. पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः कॉमन पैसेज, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।

अतएव, आप ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है) कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं। तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री हरदीप सॅभरवाल, फोनः 9654965496 अथवा श्री विकास आनंद, फोन-9711010384

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए स्थानः दिल्ली तिथि: 7.8.2020 (प्राधिकृत अधिकारी)

SUNRISE DISTILLERIES LIMITED

CIN: L15511DL1985PLC021272

Registered Office: 3/14A, 1st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009 Contact No.: 011-27132054, 09868008427; Email: sunrisedistillerieslimited@gmail.com CORRIGENDUM TO THE NOTICE DATED 2ND SEPTEMBER, 2020 OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company has been changed from 3:00 PM to 5:00 PM on Wednesday, 30th September, This Corrigendum is a part of theoriginal public notice published on 2nd September, 2020 for holding the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company on Wednesday, 30th

Due to unavoidable circumstances, the time for holding the 35th Annual General Meeting

The Shareholders are requested to save for change of time of holding the 35th AGM of the Company i.e. Wednesday, 30th September, 2020 at 5:00 PM through VC/OAVM in view of the continuing Covid-19 Pandemic and pursuant to the Ministry of Corporate Affairs's (MCA) circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & circular dated April, 13th

The Notice and the Annual Report of 35thAGM will also be available on website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in. Members attending the meeting through VC OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act,

For Sunrise Distilleries Limited Place: New Delhi Yashica Sinha

Date: 07.09.2020 Company Secretary & Compliance Officer

शापलाइन ब्राडकास्ट (पूर्व की अर्चित होल्डिंग्स एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड) पंजीकत कार्यालय: 37. द्वितीय मंजिल. रानी झाँसी रोड. मोतिया खान. पहाडगंज. दिल्ली-110055 ई-मेलः sharplinebroadcastlimited@gmail.com,

> वेबसाइटः www.sharplinebroadast.in सीआईएन: L22100DL1990PLCO39464 दूरभाष: 011-23552627 सचना

रतद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडिये विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी। परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/7 के अनुसार तथा भौतिक प्रतियाँ भेजने की कठिनाइयों के कारण एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी व उन सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल 5 सितम्बर, 2020 तक कम्पनी/आरटीए के साथ पंजीकृत थे। सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 तथा एजीएम की सुचना की भौतिक/हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगी।

चुँकि परिपत्रों के अनुसार एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार एजीएम हेतु सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे इसे कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यहाँ 'आरटीए

सन्दर्भित) के साथ compliances@skylinerta.com पंजीकृत/अपडेट करा लें। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.sharplinebroadcast.in तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् द मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर भ

यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 तथा विनियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार एतद्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 30वीं एजीएम में सदस्यों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है और सूचना में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देन एनएसडीएल द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है सदस्य निम्नलिखित पर ध्यान दें :

. कट–ऑफ तिथि अर्थात 18 सितम्बर,त 2020 तक शेयर धारण करने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य प्रकार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा.) प्रारम्भ होगी और रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी।

ii. कट-ऑफ तिथि तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग वे माध्यम से मतदान किया वे एजीएम में उपस्थित रहने के पात्र हैं। हालाँकि वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, वी कुमार एण्ड एसोसिएट्स कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथ कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिक शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल)

किसी पूछताछ के लिए आप https:// www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्य्) तथा सदस्यों हेतु ई–वोटिंग युजर मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या एनएसडीएर से टोलफ्री नं. 1800–222–990 पर सम्पर्क करें। रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी अन्य शिकायत के लिए सदस्य एनएसडीएल से निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं : दूरभाष नं. : +91 22 24994600/24994738

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटे

> > नामः परेश शाः डीआईएनः 0707020

दिनांकः 5 सितम्बर, 2020 स्थानः दिल्ली पताः 4-ए-२बी, दादाबाड़ी एक्स., कोटा, राजस्थान-324009

ansal API असल प्रापटाज्ञ रएग्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर

सीआईएन: L45101DL1967PLC004759 पंजीकृत कार्यालय: 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

मोबाइल: +91-9871053419, दूरभाष: 66038348, 23353550, 66302268/69/70/72 वेबसाइटः www.ansalapi.com ई-मेल : shareholderservice@ansalapi.com वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से 53वें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुक क्लोजर तथा ई-वोटिंग की सचना

(अ) 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों (शेयरधारकों) की

53वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे प्रातः आयोजित की जायेगी। भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/7 दिनांक 12 मई, 2020 तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 20/2020, 17/2020 तथ 14/2020 क्रमशः दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से ''एमसीप परिपत्र'' सन्दर्भित), कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों, यथा संशोधित सेमी

(सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अनुसार कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट सिंहत 53वीं एजीएम आयोजित करने की सूचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.co तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। ये दस्तावेज लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 तथ सुचीबद्धता विनियम के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी की 53वीं एजीएम आयोजित करने के उद्देश्य सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के शेयरधारकों की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020

('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

से सोमवार, 28 सितम्बर,, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा

अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठक के सचिवीय मानक-2 तथ सुचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है जिससे आप 53वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर हमारे रजिस्ट्रार, लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. (इसके पोर्टल https://instavote.linkintime.co.in के माध्यम से) द्वार प्रावधानित ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम होंगे। सदस्यों से निवेदन है कि अपना मतदान करने से पूर्व 53वीं एजीएम की सूचना के नोट में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग हेत निर्देशों को ध्यानपर्वक पढें।

ई-वोटिंग के अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 तक सदस्यों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे। कट-ऑफ तिथि अर्थात 21 सितम्बर, 2020 तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कम्पनी की 53वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित प्रकाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग शक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और रविवार, 27 सितम्बर 2020 को 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त सदस्यों को बाद में इसमें परिवर्तन करने र्क अनमति नहीं दी जायेगी।

(द) एजीएम में उपस्थित होना तथा ई-वोटिंग : सदस्य 53वीं एजीएम की सचना के नोट में प्रावधानित निर्देशों का अनुपालन करके एलआईआईपीएल (https://instameet.linkintime.co.in) द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की ऐसी सुविधा (सदस्यों द्वारा) 30 मिनट के लिए अर्थात एजीएम प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व तथा 15 मिनट बाद तक खुली रहेगी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार न्यूनतम 1,000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी एलआईआईपीएल (''इंस्टामीट'') के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग हेत सविधा भी उपलब्ध कर रही है और इसके निर्देश 53वीं एजीएम की सूचना में भी उल्लिखित हैं। रिमोट ई–वोटिंग विकल्प के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भी भाग ले सकते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत उनकी परिगणना कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी किन्तु वे पूनः एजीएम के दौरान मतदान

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे ई-वोटिंग की विंडो सिक्रय होने पर लिंक (https://instameet.linkintime.co.in) के माध्यम से एजीएम (ई-वोटिंग के माध्यम से) के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। (य) ई-मेल पंजीकृत कराने की रीति

i. भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे इसे कम्पनी के पास फोलियो नम्बर का विवरण तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करके (गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, प्राधिकार पत्र/संकल्प अपेक्षित है) shareholderservice@ansalapi.com पर लिखित में अथवा लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के पास shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर निवेदन कर सकते हैं या शेयरधारक लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट करा सकते हैं।

ii. डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करायें अथवा उपर्युक्त युआरएल के माध्यम से वे अपना ई-मेल पत अस्थायी रूप से पंजीकत कर सकते हैं।

कोई व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है एवं अन्य सदस्य (जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं तथा वे सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी भागीदार/डिपॉजिटरी के साथ अपडेट नहीं कराये हैं) वे 53वीं एजीएम की सुचना के नोट में उल्लिखित के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग/एजीए में भाग लेने तथा मतदान के निर्देशों का अनुपालन करके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं जो कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com तथा साथ ही एलआईआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है। हालाँकि यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एलआईआईपीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग वे माध्यम से मतदान करने हेत वह वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। एजीएम की सुचना में निर्धारित संकल्पों पर मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति अर्थात 30 सितम्बर 2020 को या इससे पूर्व अडतालीस घण्टों के भीतर कर दी जायेगी। संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के पश्चात अपलोड कर दिये जायेंगे और तत्काल ही इसकी सूचना बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी जायेगी। कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन के कारण परिणाम कम्पनी के सूचना बोर्ड तथा इसके पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग सहित) के लिए संवीक्षक के रूप में एपीएसी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया गया है। शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के मामले में कृपया https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या दूरभाष 022-49186000 पर सम्पर्क करें या श्री पवन सिंह बिष्ट, प्रबन्धक, 115, अंसल भवन, 16, कस्तरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर सम्पर्क करें या 011-66038217 पर कॉल करें या shareholderservice@ansalapi.com पर

ई-मेल करें।

तिथि: ७ सितम्बर, २०२०

कृते अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

अब्दुल सामी महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट मामले) तथा कम्पनी सचिव

सार्वजनिक सूचना ओम पिज्जास एंड ईट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(ऋणशोधन के अंतर्गत कंपनी) सी.पी. (आईबी) -89(एनडी) 2018 के मामले में पंजी. कार्याः दुकान —जी—3, जी—फ्लोर, प्लॉट नं. —4, सेक्टर—12, पॉकेट—7,

मल्हन, फलकॉन प्लाजा, द्वारका एन, दिल्ली नई दिल्ली—110078 भारतीय ऋणशोधन व दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31) (ओम पिज्जास एंड ईट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डर के

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा जमा किए गए दावों माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच, कोर्ट—॥ दिनांक 14 फरवरी 2020 (30 जुलाई 2020 को प्राप्त ऑर्डर की प्रति) के ऑर्डर के अनुसार ओम पिज्जास एंड ईटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऋणशोधन के अंतर्गत कंपनी) के मामले में, 03 अगस्त, 2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार सार्वजनिक घोषणा के उत्तर में। दावों के सत्यापन के बाद, अधोहस्ताक्षरी दावों की स्थिति सहित स्टेकहोल्डरों की सूची जमा होगी चाहे दावे माननीय नेशनल कपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच, कोर्ट-।। को सत्यापन के लिए स्वीकृत / अस्वीकृत / बकाया हाँ ।

स्टेकहोल्डर की सूची की प्रति जांचे के लिए ऋणशोधक के कार्यालय #41 / 1, दूसरी मंजिल, 11वीं क्रांस, 8वीं मेन, 2 ब्लॉक, जयानगर, बैंगलूरू – 560011 में उपलब्ध है । हस्ता. / — सीएस हरी बाबू थोटा

पंजी. नं. IBBI/IPA/-002/IP-N00084/2017-2018/10225 स्थान : बॅगलुरू ओम पिज्जास एंड ईट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 08.09.2020 (ऋणशोधन के अंतर्गत कंपनी)

ध्यान देने हेत्) (ऋणशोधन प्रक्रिया)

SEMAYA LIMITED

(Formerly: Sunrise Agro Products Limited) CIN: L01111DL1985PLC021268

Regd. Office: 211, AntrikshBhawan, 22, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 Email: semayalimited@gmail.com; Ph: 011-42487936 Website: www.semeyalimited.com

of Directors of the Company in their meeting dated 07th September, 2020 has taken a decision to seek approval of the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana for extension of the date of the 35th Annual General Meeting w.r.t. Financial Year 2019-20. In light of the above and pursuant to the Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 20/2020, dated 05.05.2020 and General Circular No. 28/2020 dated 17.08.2020 an application is being forwarded to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana seeking a reasonable extension of time forcalling and holding of the 35th Annual General Meeting of the Company after 30th September,

2020 the due date. A copy of this publication shall also be filed with the Metropolitan Stock Exchange of India.

(Formerly: Sunrise Agro Products Limited

Lovely

Place: New Delhi Date: 07th September, 2020

Company Secretary & Compliance Officer

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट क. लि. पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल), मधुवन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092 वेबसाईटः www.maryadainvestment.in, टेली.: 011-49901667

वीसी(विडियो कान्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों) द्वारा आयोजित की जाने वाली मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड की 38वीं साधारण वार्षिक सभा की सुचना। एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 38वी वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 4.30 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य

ऑडियो विजअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभित और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी साधारण सर्क्यूलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा लागू होने वाले सभी सर्क्युलर तथा कानूनों के अनुपालन में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा, निदेशकों का रिपोर्ट, ऑडिटरों का रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2020

है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। यदि आपने कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ईमेल आईडी पंजीकृत कराने के लिये

भौतिका ई–मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैंक) क धारिता। स्कैन की गई प्रति. पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति. आधार (आधार कार्ड की स्वत सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराते हुए admin@skyinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ

डीमैट) कृपया डीमैट खाता का विवरण (सीडीएसएल-16 डिजिट लाभभोगी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 डिजिट धारिता डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम क्लाइन्ट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वत सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराएँ

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमों, 2014, यथा–संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी रं इलेक्टॉनिक रूप से मतदान करने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये उसकी पोर्टल www.evotingindia.com वे माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी उसके बाद मतदान के लिये सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना वे प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे www.evotingindia.com पर अथवा admin@skyinerta.com पर आटीए, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद में उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम रं पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। रविशंकर एंड एसोसिएट्स कार्यरत कम्पनी सचिव को ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना के साथ भेजी गई पत्र में शामिल है। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/समस्या सुश्री हरिशखा अग्रवाल, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 22 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित)तक वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों का अभिलेख

तिथि: ०६ सितम्बर, २०२०

(कुलदीप शर्मा

पंजीकत कार्यालय : 10795, शॉप नं. ७. जीएफ, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉर्पॉरेट ऑफिस: सी 53-54, सेक्टर 57, नोएडा, य.पी. 201301 फोन न : 011 - 4601500, CIN : L74899DL1987PLC029035,

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राक्धानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपन्न सं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, एमसीए सामान्य परिपन्न नं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और एमसीए सामान्य परिपन्न सं. 20 / 2020

https://www.evotingindia.com पर रिमोट ई—वोटिंग क्रेडेशियल्स के उपयोग पर शेयरहोल्डर्स / मैम्बर्स के अंतर्गत लॉगइन करके एक्सेस किया जा सकता है। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक मैम्बर्स लॉगइन पर उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का इंवीएसएन प्रदर्शित होगा। वीसी/ऑएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन

संगत परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सद्यना और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरणो के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी के उन सदस्यों को 7 सितम्बर, 2020 को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी के आरटीए के पास पंजीकृत है। उपरोक्त कथित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सीडीएसएल की

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना बोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण नीचे वर्णित तिथियों पर सीडीएसएल के (लेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई—बोटिंग") का उपयोग करके अपना वोट रिमोटली दे सकते हैं।

रेमोट ई-वोटिंग पारंभ तिथि एवं समय 27.09.2020 (रविवार) रेमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि एवं समय

की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केंवल वे ही ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम

 अभ्य विवरण : कम्पनी अधिनियम, 2013 और उससे जुड़े नियमों तथा अन्य साविधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपेक्षित अन्य

यम से किया जा सकता है। इ) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या ऐसे सदस्य जिनका

तपलका है। ग) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में भागीदारी या

जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से दे दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और 33वीं एजीएम की सुचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 को शेयर घारण करता है.

वह रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में बैठक की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर सकता है या helpdesk,evoting@cdslindia.com पर लिख सकता है या 1800225533 पर कॉल कर सकता है।

एजीएम में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग से जड़ी किसी भी पछताछ या परेशानी

के लिए www.evotingindia.com, के डेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं ई-वोटिंग मैनअल का अवलोकन करें या ई-मेल helpdesk,evoting@cdslindia.com पर लिखें या श्री नितिन क् बेर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क करें। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते एमको इंडिया लिमिटेड स्रेन्दर कुमार गुप्ता

7 **सितंबर**, 2020

'हर काम देश के नाम'

NOTICE W.R.T. APPLICATION FOR EXTENSION OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that amidst the COVID-19 pandemic scare across the globe the Board

For Semaya Limited

CIN: U65993DL1982PLC013738

को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तथा रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई

शेयर अंतरण एजेन्ट, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।

लिमिटेड, 106 (1 ला तल), मधुवन टावर, ए-1, बी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092, फोनः 011-49901667, ईमेलः macel1982@gmail.com को संबोधित की जा सकती है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी वेबसाईट www.maryadainvestment.in तथा स्टॉक एक्सचैंज (एमएसईआई) की वेबसाईट www.msei.in पर भी उपलब्ध होगा। मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड

इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए

एमको इंडिया लिमिटेड

ई-मेल : amco.india@ymail.com, वेबसाइट : www.amcoindialimited.com कम्पनी के सदस्यों के लिए सूचना तैतीसवीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग पर जानकारी

दिनांक 5 मई, 2020 तथा सेबी परिपन्न सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 (संयुक्त रूप से "परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निश्पादन के लिए एमको इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ब्रुवार, 30 सितम्बर, 2020 को अप, 4.00 बजे आईएसटी में विक्रियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियों विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए सक्षम होंगे और इसे

वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश: रिमोट ई-वोटिंग

29.09.2020 (मंगलवार) सार्य 05:00 बजे 29 सितम्बर, 2020 को साथं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल बन्द कर दिया जाएगा। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग ("एजीएम के दौरान ई-वोटिंग")

में वोट देने में सक्षम होंगे।

क) एजीएम की सबना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्

ई-मेल पता पंजीकत नहीं है, के लिए रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com पर भी

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा पाने के हकदार होंगे।

सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियो (डीपी) के पास अपडेट कराएं और भौतिक प्रांरूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण अपना ई-मेल पता कम्पनी के रजिस्टार एवं षेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यथा बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेंड को ई-मेल investor@beetalfinancial.com के

स्थान : नोएडा, यु.पी. दिनांक : 07.09.2020

www.readwhere.com